



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 ज्येष्ठ 1947 (श10)
(सं0 पटना 1020) पटना, शुक्रवार, 30 मई 2025

सं० ग्रा०वि०-7(JJH)-01/2022-4102528
ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प
20 मई 2025

विषय:- जल-जीवन-हरियाली अभियान का वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक अवधि विस्तार एवं विस्तारित अवधि में इसके क्रियान्वयन पर होने वाले अनुमानित व्यय कुल 24511.55 करोड़ (दो सौ पैंतालीस अरब ग्यारह करोड़ पचपन लाख) रुपये की स्वीकृति तथा विस्तारित अवधि में इसके प्रशासनिक मद पर होनेवाले अनुमानित व्यय कुल 103.69 करोड़ (एक सौ तीन करोड़ उनहत्तर लाख) रुपये की स्वीकृति के संबंध में ।

जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप अनियमित वर्षापात, भू-जल स्तर में गिरावट एवं पर्यावरण असंतुलन की चुनौतियों से निपटने के लिए संकल्प सं०: 442496 दिनांक 27.09.2019 द्वारा जल-जीवन-हरियाली अभियान के संचालन, इस पर वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक होने वाले अनुमानित व्यय की स्वीकृति, लक्ष्यों के निर्धारण, नियमित अनुश्रवण एवं अभियान को मिशन मोड में लागू करने हेतु जल-जीवन-हरियाली मिशन के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं संकल्प संख्या 1167055 दिनांक 22.08.2022 द्वारा जल-जीवन-हरियाली अभियान का वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक अवधि विस्तार एवं विस्तारित अवधि में इसके क्रियान्वयन पर होने वाले अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस क्रम में संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं उसके विरुद्ध क्रियान्वयन हेतु आगामी 5 वर्षों (2025-26 से 2029-30 तक) के लिए अनुमानित भौतिक लक्ष्य एवं अनुमानित व्यय प्रतिवेदित किया गया है ।

2. इस क्रम में जल-जीवन-हरियाली अभियान के विस्तारीकरण एवं इसके क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है :-

- (i) 'जल-जीवन-हरियाली अभियान' का वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक अवधि विस्तार एवं विस्तारित अवधि में इसके क्रियान्वयन पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4593.04 करोड़ (पैंतालीस अरब तिरानवे करोड़ चार लाख) रुपये, वर्ष 2026-27 में 4850.62 करोड़ (अड़तालीस अरब पचास करोड़ बासठ लाख) रुपये, वर्ष 2027-28 में 4974.15 करोड़ (उनचास अरब चौहत्तर करोड़ पन्द्रह लाख) रुपये, वर्ष 2028-29 में 4871.76 करोड़ (अड़तालीस अरब इकहत्तर करोड़ छिहत्तर लाख) रुपये एवं वर्ष 2029-30 में 5221.98 करोड़ (बावन अरब इक्कीस करोड़ अठानवे लाख) रुपये, अर्थात् कुल 24511.55 करोड़ (दो सौ पैंतालीस अरब ग्यारह करोड़ पचपन लाख) रुपये होने वाले

अनुमानित व्यय (समेकित रूप से अनुलग्नक-01 पर संलग्न) पर निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (क) प्रत्येक संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा अभियान के क्रियान्वयन हेतु संबंधित बजट शीर्ष में राशि उपबंधित कर आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकता है ।
- (ख) प्रत्येक संबंधित प्रशासी विभाग उसके अधीन योजनाओं की स्वीकृति विहित प्रक्रियानुसार अलग-अलग करेगा ।
- (ii) 'जल-जीवन-हरियाली मिशन' के वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक अवधि विस्तार एवं विस्तारित अवधि में इसके प्रशासनिक मद पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 18.42 करोड़ (अठारह करोड़ बयालीस लाख) रुपये, वर्ष 2026-27 में 19.24 करोड़ (उन्नीस करोड़ चौबीस लाख) रुपये, वर्ष 2027-28 में 20.51 करोड़ (बीस करोड़ इक्यावन लाख) रुपये, वर्ष 2028-29 में 21.96 करोड़ (इक्कीस करोड़ छियान्चे लाख) रुपये एवं वर्ष 2029-30 में 23.56 करोड़ (तेईस करोड़ छप्पन लाख) रुपये, अर्थात् कुल 103.69 करोड़ (एक सौ तीन करोड़ उनहत्तर लाख) रुपये होने वाले अनुमानित व्यय (समेकित रूप से अनुलग्नक-02 पर संलग्न) पर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 16.05.2025 को आहूत बैठक की मद संख्या-2 में स्वीकृति प्राप्त है।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(हो) अस्पष्ट,
सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1020-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>